

# BANKING AND FINANCIAL MANAGEMENT

## Paper- I : Financial Management

Time : Three Hours

M.M. : 100

### Part-A (Compulsary)

[20 Marks]

#### भाग-अ (अनिवार्य)

- Q.1. What are the major financial decisions? [2]  
मुख्य वित्तीय निर्णय कौन-से हैं ?
- Q.2. What are Liquid assets? तरल सम्पत्ति क्या है ? [2]
- Q.3. Give Debtors turnover ratio. देनदार आवर्त अनुपात बताइए। [2]
- Q.4. What is Price Earning ratio? मूल्य अर्जन अनुपात क्या है ? [2]
- Q.5. When does flow of funds take place? कोषों का प्रवाह कब होता है ? [2]
- Q.6. What do you understand by 'Financial Leverage'? [2]  
वित्तीय उत्तोलक से आप क्या समझते हैं ?
- Q.7. What is the cost of Debt Capital? ऋण पूंजी की लागत क्या है ? [2]
- Q.8. Define financial planning. वित्तीय योजना की परिभाषा दीजिए। [2]
- Q.9. What is Margin of Safety? Give formula. [2]  
सुरक्षा सीमा क्या है ? सूत्र दीजिए।
- Q.10. What is interim dividend? अंतरिम लाभांश क्या है ? [2]

### Part-B (Compulsary)

#### भाग-ब (अनिवार्य)

- Q.11. Write two functions and responsibilities of a modern financial manager. [4]  
आधुनिक वित्तीय प्रबंधक के दो कार्य एवं दो दायित्व बताइए।
- Q.12. From the following information determine: [4]  
निम्न सूचना से ज्ञात कीजिए:
- |                 |            |
|-----------------|------------|
| Working Capital | Rs. 80,000 |
| Current Ratio   | 2 : 1      |
| Quick Ratio     | 1.25 : 1   |
- (i) Current Liabilities  
(ii) Liquid Assets  
(iii) Inventory
- Q.13. From the following particulars compute fund from operations. [4]  
निम्नलिखित विवरणों से परिचालन से कोषों की गणना कीजिए:

Particulars	31.3.2014	31.3.2015
P. & L. Appropriation A/c	30,000	40,000
General Reserve	20,000	25,000
Goodwill	10,000	5,000
Preliminary expenses	6,000	4,000
Provision for Depreciation	10,000	12,000

Q.14. If the sales of a company are Rs. 10,00,000, variable cost 60% sales and fixed cost are Rs. 2,00,000., find out degree of operating leverage.

[4]

यदि एक कम्पनी की बिक्री 10,00,000 रु. हो तथा परिवर्तनशील लागतों की बिक्री 60% हो तथा स्थायी लागत 2,00,000 रु. हो तो परिचालन उतोलक की मात्रा ज्ञात कीजिए।

Q.15. Explain the A, B, C technique of inventory control.

[4]

स्कन्ध नियंत्रण की अ, ब, स तकनीक को स्पष्ट कीजिए।

### Part-C/ भाग-स

#### Unit-I/ इकाई-I

Q.16. Define Financial Management. Explain the scope and importance of Financial Management.

[20]

वित्तीय प्रबंध की परिभाषा दीजिए। वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र एवं महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

### OR ( अथवा )

Q.16. With the following ratio and further information given below, prepare Trading Account, Profit and Loss Account and Balance Sheet.

[20]

अग्रलिखित अनुपातों व अतिरिक्त सूचनाओं से व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता व चिट्ठा तैयार कीजिए।

1.	Gross Profit Ratio	25%
2.	Sales/ Inventory Ratio	10 Times
3.	Net profit/ Capital	1/4
4.	Capital/ Total liabilities	1/2
5.	Fixed Assets/ Capital	5/4
6.	Fixed Assets/ Total Current Assets	5/7
7.	Fixed Assets	Rs. 10,00,000
8.	Closing stock	Rs. 1,00,000

## Unit-II/इकाई-II

- Q.17. What is meant by Fund Flow? How is it prepared? Explain in detail.  
कोष प्रवाह विवरण किसे कहते हैं? यह किस प्रकार तैयार किया जाता है? विस्तार से समझाइए। [20]

OR (अथवा)

- Q.17. Mehta Enterprises has a turnover of Rs. 15,00,000. Variable cost is Rs. 8,00,000 while fixed cost is Rs. 3,00,000. Debenture worth Rs. 3,00,000 at 12% per annum. Calculate operating, financial and combined leverage. Tax Rate is 30%. [20]

परिवर्तनशील लागत 8,00,000 रु. तथा स्थायी लागत 3,00,000 रु. है। 3,00,000 रु. के 12% वार्षिक ऋण पत्र है। परिचालन, वित्तीय तथा संयुक्त उतोलक की गणना कीजिए। कर की दर 30% है।

- Q.18. What is a 'Dividend Policy'? Examine the factor determining the dividend policy of a company. [20]  
लाभांश नीति क्या है? एक कम्पनी की लाभांश नीति को निर्धारित करने वाले घटकों का परीक्षण कीजिए।

OR (अथवा)

- Q.18. A Company gives the following information: [20]

एक कम्पनी निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करती है:

Margin of safety	Rs. 375,000
Total cost	Rs. 387,500
Margin of safety (Qty)	15,000 Units
Break Even sales in Units	5000 Units

You are required to calculate:

आप से अपेक्षित है कि निम्नलिखित की गणना कीजिए:

- (i) Selling price per unit
- (ii) Profit
- (iii) Profit/ Volume Ratio
- (iv) Break - even sales (In Rupees)
- (v) Fixed Cost